



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1905

No. 372]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(मिजा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

सां० का० मि० 737(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियम, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1983 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन :—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियम, 1983 की अनुसूची में क्रमशः सचिव और अपर सचिव के पदों से संबंधित क्रम संख्याक 1 और 2 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
1 सचिव	श्रेणी क	2500-125/2-2750 रु०	लागू नहीं होता क्योंकि यह प्रोन्नति पद है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
2 अपर सचिव	श्रेणी क	2250-125/2-2500 रु०	प्रोन्नति की दशा में न्यून	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

8	9	10	11	12
सागू नहीं होता	सागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानान्तरण द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसा व्यक्ति जिसने किसी विश्वविद्यालय या किसी उच्चतर शिक्षा/अनुसंधान संस्था में आचार्य/विद्वान के रूप में सेवा की है या सेवा कर रहा है और उसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन या अनुसंधान मार्गदर्शन करने और शैक्षिक प्रशासन का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है। या</p> <p>ऐसा व्यक्ति जिसने केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, स्वायत्त संगठनों, लोक उद्यमों आदि में समतुल्य श्रेणी का एक श्रेणी में नीचे की श्रेणी में किसी अधिकारी के रूप में कार्य किया है या कार्य कर रहा है और उसने निम्नतर श्रेणी में 5 वर्षों सेवा की है, तथा उसके पास शैक्षिक प्रशासन का अनुभव है।</p> <p>नियुक्ति, अवधि के आधार पर, 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी जो 5 वर्षों की अवधि के लिए एक बार और नवीकरणीय है, दोनों यथाविहित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए है।</p> <p>टिप्पण 1 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऐसे अधिकारी भी विचार किए जाने के पात्र होंगे जो उपर्युक्त शर्तों में से किसी को पूरा करते हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के आवेदन खुले विज्ञापन के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।</p>	<p>(1) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।</p> <p>(2) उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।</p> <p>(3) आयोग द्वारा नाम निर्देशित उसके तीन सदस्य।</p> <p>(4) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि।</p>
सागू नहीं होता	सागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थानान्तरण द्वारा	<p>प्रोन्नति : आयोग का ऐसा संयुक्त सचिव, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्षों निरंतर नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/संविदा पर स्थानान्तरण : ऐसा व्यक्ति जिसने किसी विश्वविद्यालय या किसी उच्चतर शिक्षा अनुसंधान संस्था में आचार्य/विद्वान के रूप में सेवा की है या सेवा कर रहा है और उसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन या अनुसंधान मार्गदर्शन करने और शैक्षिक प्रशासन का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है।</p> <p>या</p> <p>ऐसा व्यक्ति जिसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, स्वायत्त संगठनों, लोक उद्यमों आदि में समतुल्य श्रेणी या</p>	<p>(1) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग</p> <p>(2) उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग</p> <p>(3) आयोग द्वारा नाम निर्देशित उसके तीन सदस्य।</p> <p>(4) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि।</p>

9	10	11	12
		एक श्रेणी से नीचे की श्रेणी में किसी अधिकारी के रूप में कार्य किया है या कार्य कर रहा है और उसने निम्नतर श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है, तथा उसके पास शैक्षिक प्रशासन का अनुभव है। प्रतिनियुक्ति या संबद्धता की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या यथा विहित अधिवर्षिता की तारीख तक होगी, दोनों में से जो भी पहले हो।)	

[सं० एफ० 10-46/83-डेस्क (यू०)]

एम० आर० कोल्हटकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF EDUCATION &amp; CULTURE

(Department of Education)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

**G.S.R. 737(E)** —In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the University Grants Commission (Recruitment) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Schedule :—In the Schedule to the University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983, for serial numbers 1 and 2 relating to the posts of Secretary and Additional Secretary respectively and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Secretary	Gr. A	2500-125/2-2750	N.A., as it is not a promotion post	N.A.	N.A.	N.A.	
2. Additional Secretary	Gr. A	2250-125/2-2500	Selection in the case of promotion	N.A.	N.A.	N.A.	
9	10	11	12				
N.A.	By transfer on deputation or on contract,	Transfer on deputation or on contract A person who has served or is serving as a professor/scholar in a university or any institution of higher education/research, with at least 10 years experience of teaching at post-graduate level or guiding research and experience of educational administration.	(1) Chairman, UGC (2) Vice-Chairman, UGC (3) Three members of the Commission nominated by it. (4) A representative of the Central Government.				
OR							
A person who has served or is serving as an officer of Central or State Governments or Universities, research institutes, autonomous organisations, public enterprises, etc. in equivalent grade or in one grade lower, with 5 years service in the lower grade and having experience of educational administration. (Appoint-							

9

10

11

12

ment will be made on a tenure basis for a term of 5 years renewable for one more term of 5 years, both being subject to age of superannuation as prescribed).

Note 1 : Officers of the UGC who fulfil either of the above conditions will also be eligible for consideration.

Note 2 : Applications for consideration for appointment on transfer on deputation or on contract shall be invited through open advertisement.

N.A.

By promotion failing which by transfer on deputation or on contract.

Promotion :

Joint Secretary in the Commission with 5 years continuous regular service in the grade.

Transfer on deputation or on contract :

A person who has served or is serving as a professor/scholar in a university or any institution of higher education/research, with at least 10 years experience of teaching at post-graduate level or guiding research and experience in educational administrative.

- (1) Chairman, UGC.
- (2) Vice-Chairman UGC.
- (3) Three members of the Commission nominated by it.
- (4) A representative of the Central Government.

OR

A person who has served or is serving as an officer of Central or State Governments or universities, research institutes, autonomous organisations, public enterprises, etc. in equivalent grade or in one grade lower, with 5 years service in the lower grade and having experience of educational administration. (Period of deputation or contract shall not exceed 5 years or till the date of superannuation as prescribed, whichever is earlier).

[No. F. 10-46/83-Desk (U)]

M.R. KOLHATKAR, Jt. Secy.